



Priyanka roy

01 Jan 1985

06:45 AM

Kolkata

Model: Web-MyKundli

Order No: 121121001

## सूचना

ज्योतिष एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत ग्रहों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रभावों की भविष्यवाणी करने हेतु ग्रहों की स्थिति एवं इसके बल की गणना की जाती है। जन्मपत्रिकाओं की गणना अति सटीक है जिसमें बिल्कुल सही रेखांश प्रयुक्त हुए हैं। सामान्य तौर पर इसमें चित्रापक्षीय अयनांश का प्रयोग किया जाता है जबतक कि आप दूसरे अयनांश का विकल्प न मांगें।

कम्प्यूटर जन्मपत्रिकाएं मुख्य रूप से पाराशरी पद्धति पर आधारित है। हालांकि इसमें ताजिक पद्धति, जैमिनी पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति, प्रश्नशास्त्र एवं पाश्चात्य पद्धतियों का भी ज्योतिषीय गणना में मिश्रण किया गया है। फलादेश मुख्य रूप से विभिन्न प्राचीन शास्त्रों जैसे बृहत् पराशर, होराशास्त्र, मानसागरी, सारावली, जातकभरणम, बृहत् जातक, फलदीपिका, जातक पारिजात के अनुरूप, साथ ही अपने अनुभवों का भी समावेश करके बनाया गया है। फिर भी, ज्योतिष का मार्गदर्शन लेकर हम अपने भविष्य का संकेत मात्र प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा ही यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आनेवाले समय में क्या घटित होगा ?

यह जन्मपत्रिका जन्म तिथि, जन्म समय एवं जन्म स्थान पर आधारित है जो कि जातक ने हमें उपलब्ध कराया है। अतः आंकड़ों की सटीकता से संबंधित हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ज्योतिषीय गणना एवं फलादेश जातक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के ऊपर आधारित है। जन्मपत्रिका में दिए गए फलादेश जातक के लिए सिर्फ संकेत मात्र है जिस पर जातक को सावधानीपूर्वक अमल करना चाहिए न कि हूबहू जैसा फलादेश में कहा गया है, बिना सोचे समझे उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। जन्मपत्रिका के विभिन्न पृष्ठों में दी गयी सूचनाएं किसी भी प्रकार के विवाद अथवा वैधानिक कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः जातक की स्वयं की कार्यवाही से उत्पन्न हुए किसी भी क्षति के लिए हम उत्तरदायी नहीं है।

लिंग \_\_\_\_\_: स्त्रीलिंग  
जन्म तिथि \_\_\_\_\_: 01/01/1985  
दिन \_\_\_\_\_: मंगलवार  
जन्म समय \_\_\_\_\_: 06:45:00 घंटे  
इष्ट \_\_\_\_\_: 01:10:07 घटी  
स्थान \_\_\_\_\_: Kolkata  
राज्य \_\_\_\_\_: West Bengal  
देश \_\_\_\_\_: India

अक्षांश \_\_\_\_\_: 22:34:00 उत्तर  
रेखांश \_\_\_\_\_: 88:21:00 पूर्व  
मध्य रेखांश \_\_\_\_\_: 82:30:00 पूर्व  
स्थानिक संस्कार \_\_\_\_\_: 00:23:24 घंटे  
ग्रीष्म संस्कार \_\_\_\_\_: 00:00:00 घंटे  
स्थानिक समय \_\_\_\_\_: 07:08:24 घंटे  
वेलान्तर \_\_\_\_\_: -00:03:31 घंटे  
साम्पातिक काल \_\_\_\_\_: 13:50:58 घंटे  
सूर्योदय \_\_\_\_\_: 06:16:57 घंटे  
सूर्यास्त \_\_\_\_\_: 17:03:27 घंटे  
दिनमान \_\_\_\_\_: 10:46:31 घंटे  
सूर्य स्थिति(अयन) \_\_\_\_\_: उत्तरायण  
सूर्य स्थिति(गोल) \_\_\_\_\_: दक्षिण  
ऋतु \_\_\_\_\_: शिशिर  
सूर्य के अंश \_\_\_\_\_: 16:55:33 धनु  
लग्न के अंश \_\_\_\_\_: 22:49:42 धनु

#### अवकहड़ा चक्र

लग्न-लग्नाधिपति \_\_\_\_\_: धनु - गुरु  
राशि-स्वामी \_\_\_\_\_: मेष - मंगल  
नक्षत्र-चरण \_\_\_\_\_: अश्विनी - 3  
नक्षत्र स्वामी \_\_\_\_\_: केतु  
योग \_\_\_\_\_: शिव  
करण \_\_\_\_\_: तैतिल  
गण \_\_\_\_\_: देव  
योनि \_\_\_\_\_: अश्व  
नाड़ी \_\_\_\_\_: आद्य  
वर्ण \_\_\_\_\_: क्षत्रिय  
वश्य \_\_\_\_\_: चतुष्पाद  
वर्ग \_\_\_\_\_: सिंह  
युँजा \_\_\_\_\_: पूर्व  
हंसक \_\_\_\_\_: अग्नि  
जन्म नामाक्षर \_\_\_\_\_: चो-चोखी  
पाया(राशि-नक्षत्र) \_\_\_\_\_: रजत - स्वर्ण  
सूर्य राशि(पाश्चात्य) \_\_\_\_\_: मकर

## पंचांग

दादा का नाम \_\_\_\_\_ :  
पिता का नाम \_\_\_\_\_ :  
माता का नाम \_\_\_\_\_ :  
जाति \_\_\_\_\_ :  
गोत्र \_\_\_\_\_ :

कैलेंडर	वर्ष	मास	तिथि/प्रविष्टे
राष्ट्रीय	शक : 1906	पौष	11
पंजाबी	संवत : 2041	पौष	18
बंगाली	सन् : 1391	पौष	17
तमिल	संवत : 2041	मार्गड़ी	18
केरल	कोल्लम : 1160	धनु	17
नेपाली	संवत : 2041	पौष	18
चैत्रादि	संवत : 2041	पौष	शुक्ल 10
कार्तिकादि	संवत : 2041	पौष	शुक्ल 10

### पंचांग


सूर्योदय कालीन तिथि \_\_\_\_\_ : 10  
तिथि समाप्ति काल \_\_\_\_\_ : 29:12:45  
जन्म तिथि \_\_\_\_\_ : 10  
सूर्योदय कालीन नक्षत्र \_\_\_\_\_ : अश्विनी  
नक्षत्र समाप्ति काल \_\_\_\_\_ : 20:07:47 घंटे  
जन्म योग \_\_\_\_\_ : अश्विनी  
सूर्योदय कालीन योग \_\_\_\_\_ : शिव  
योग समाप्ति काल \_\_\_\_\_ : 12:26:01 घंटे  
जन्म योग \_\_\_\_\_ : शिव  
सूर्योदय कालीन करण \_\_\_\_\_ : तैतिल  
करण समाप्ति काल \_\_\_\_\_ : 16:05:51 घंटे  
जन्म करण \_\_\_\_\_ : तैतिल  
भयात \_\_\_\_\_ : 33:44:29  
भभोग \_\_\_\_\_ : 67:11:26  
भोग्य दशा काल \_\_\_\_\_ : केतु 3 वर्ष 5 मा 28 दि

### घात चक्र


मास \_\_\_\_\_ : कार्तिक  
तिथि \_\_\_\_\_ : 1-6-11  
दिन \_\_\_\_\_ : रविवार  
नक्षत्र \_\_\_\_\_ : मघा  
योग \_\_\_\_\_ : विष्कुम्भ  
करण \_\_\_\_\_ : बव  
प्रहर \_\_\_\_\_ : 1  
वर्ग \_\_\_\_\_ : मृग  
लग्न \_\_\_\_\_ : मेष  
सूर्य \_\_\_\_\_ : कर्क  
चन्द्र \_\_\_\_\_ : मेष  
मंगल \_\_\_\_\_ : सिंह  
बुध \_\_\_\_\_ : वृष  
गुरु \_\_\_\_\_ : कन्या  
शुक्र \_\_\_\_\_ : तुला  
शनि \_\_\_\_\_ : मिथुन  
राहु \_\_\_\_\_ : वृश्चिक

# जन्म कुण्डली

## लग्न कुण्डली



## चन्द्र कुण्डली



## लग्न कुण्डली और दशा

### लग्न कुंडली

	चं	रा	
शु मं			
गु ल सू	के बु श		

### लग्न कुंडली

रा	चं	
		शु मं
	ल बु श	सू गु के

विंशोत्तरी  
केतु 3वर्ष 5मा 28दि  
केतु

01/01/1985

01/07/2101

केतु	30/06/1988
शुक्र	30/06/2008
सूर्य	01/07/2014
चन्द्र	30/06/2024
मंगल	01/07/2031
राहु	30/06/2049
गुरु	30/06/2065
शनि	30/06/2084
बुध	01/07/2101

योगिनी

भ्रामरी 1वर्ष 11मा 29दि  
भद्रिका

31/12/2022

31/12/2027

भद्रिका	11/09/2023
उल्का	11/07/2024
सिद्धा	01/07/2025
संकटा	11/08/2026
मंगला	01/10/2026
पिंगला	10/01/2027
धान्या	11/06/2027
भ्रामरी	31/12/2027


## ग्रह स्पष्ट तथा उनकी स्थिति

ग्रह	व	अ	राशि	अंश	गति	नक्षत्र	पद	नं.	रा	न	अं.	स्थिति
लग्न			धनु	22:49:42	356:30:44	पूर्वाषाढा	3	20	गुरु	शुक्र	शनि	---
सूर्य			धनु	16:55:33	01:01:09	पूर्वाषाढा	2	20	गुरु	शुक्र	चंद्र	मित्र राशि
चंद्र			मेष	06:40:38	11:54:08	अश्विनी	3	1	मंगल	केतु	राहु	सम राशि
मंगल			कुंभ	11:32:08	00:45:51	शतभिषा	2	24	शनि	राहु	शनि	सम राशि
बुध			वृश्चि	24:22:26	00:50:42	ज्येष्ठा	3	18	मंगल	बुध	राहु	सम राशि
गुरु			धनु	27:49:32	00:13:55	उत्तराषाढा	1	21	गुरु	सूर्य	चंद्र	स्वराशि
शुक्र			कुंभ	02:46:09	01:07:19	धनिष्ठा	3	23	शनि	मंगल	शुक्र	मित्र राशि
शनि			वृश्चि	01:05:30	00:05:42	विशाखा	4	16	मंगल	गुरु	मंगल	शत्रु राशि
राहु			वृष	02:56:45	00:01:30	कृतिका	2	3	शुक्र	सूर्य	गुरु	मित्र राशि
केतु			वृश्चि	02:56:45	00:01:30	विशाखा	4	16	मंगल	गुरु	राहु	मित्र राशि
हर्ष			वृश्चि	21:43:29	00:03:25	ज्येष्ठा	2	18	मंगल	बुध	सूर्य	---
नेप			धनु	07:50:36	00:02:15	मूल	3	19	गुरु	केतु	गुरु	---
प्लूटो			तुला	10:43:06	00:01:16	स्वाति	2	15	शुक्र	राहु	शनि	---
दशम भाव			तुला	06:10:43	--	चित्रा	--	14	शुक्र	मंगल	चंद्र	--


व - वकी स - स्थिर  
अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त  
राहु : स्पष्ट

चित्रपक्षीय अयनांश : 23:38:37


### लग्न-चलित



### चन्द्र कुंडली



### नवमांश कुंडली



## चलित तथा निरयण भाव चलित

### चलित अंश

भाव	भाव संधि	भाव मध्य
1	धनु 10:03:12	धनु 22:49:42
2	मकर 10:03:12	मकर 27:16:43
3	कुम्भ 14:30:13	मीन 01:43:43
4	मीन 18:57:13	मेष 06:10:43
5	मेष 18:57:13	वृष 01:43:43
6	वृष 14:30:13	वृष 27:16:43
7	मिथुन 10:03:12	मिथुन 22:49:42
8	कर्क 10:03:12	कर्क 27:16:43
9	सिंह 14:30:13	कन्या 01:43:43
10	कन्या 18:57:13	तुला 06:10:43
11	तुला 18:57:13	वृश्चिक 01:43:43
12	वृश्चिक 14:30:13	वृश्चिक 27:16:43


### निरयण भाव चलित

भाव	राशि	अंश
1	धनु	22:49:42
2	मकर	27:37:27
3	मीन	03:44:09
4	मेष	06:10:43
5	वृष	03:33:18
6	वृष	28:00:08
7	मिथुन	22:49:42
8	कर्क	27:37:27
9	कन्या	03:44:09
10	तुला	06:10:43
11	वृश्चिक	03:33:18
12	वृश्चिक	28:00:08


### तारा चक्र

जन्म	सम्पत्	विपत्	क्षेम	प्रत्यारि	साधक	वध	मित्र	अतिमित्र
अश्विनी	भरणी	कृतिका	रोहिणी	मृगशिरा	आर्द्रा	पुनर्वसु	पुष्य	आश्लेषा
मघा	पूर्वाफाल्गुनी	उ०फाल्गुनी	हस्त	चित्रा	स्वाति	विशाखा	अनुराधा	ज्येष्ठा
मूल	पूर्वाषाढ़ा	उत्तराषाढ़ा	श्रवण	धनिष्ठा	शतभिषा	पूर्वाभाद्रपद	उ०भाद्रपद	रेवती

### चलित कुंडली



### भाव कुंडली



## विंशोत्तरी दशा

भोग्य दशा काल : केतु 3 वर्ष 5 मास 28 दिन

केतु 7 वर्ष	शुक्र 20 वर्ष	सूर्य 6 वर्ष	चंद्र 10 वर्ष	मंगल 7 वर्ष
01/01/1985	30/06/1988	30/06/2008	01/07/2014	30/06/2024
30/06/1988	30/06/2008	01/07/2014	30/06/2024	01/07/2031
00/00/0000	शुक्र 31/10/1991	सूर्य 18/10/2008	चंद्र 01/05/2015	मंगल 26/11/2024
00/00/0000	सूर्य 30/10/1992	चंद्र 18/04/2009	मंगल 30/11/2015	राहु 15/12/2025
00/00/0000	चंद्र 01/07/1994	मंगल 24/08/2009	राहु 31/05/2017	गुरु 21/11/2026
00/00/0000	मंगल 31/08/1995	राहु 19/07/2010	गुरु 30/09/2018	शनि 30/12/2027
01/01/1985	राहु 30/08/1998	गुरु 07/05/2011	शनि 30/04/2020	बुध 27/12/2028
राहु 18/06/1985	गुरु 30/04/2001	शनि 18/04/2012	बुध 30/09/2021	केतु 25/05/2029
गुरु 25/05/1986	शनि 30/06/2004	बुध 23/02/2013	केतु 01/05/2022	शुक्र 25/07/2030
शनि 04/07/1987	बुध 01/05/2007	केतु 30/06/2013	शुक्र 30/12/2023	सूर्य 30/11/2030
बुध 30/06/1988	केतु 30/06/2008	शुक्र 01/07/2014	सूर्य 30/06/2024	चंद्र 01/07/2031

राहु 18 वर्ष	गुरु 16 वर्ष	शनि 19 वर्ष	बुध 17 वर्ष	केतु 7 वर्ष
01/07/2031	30/06/2049	30/06/2065	30/06/2084	01/07/2101
30/06/2049	30/06/2065	30/06/2084	01/07/2101	00/00/0000
राहु 13/03/2034	गुरु 19/08/2051	शनि 03/07/2068	बुध 27/11/2086	केतु 28/11/2101
गुरु 06/08/2036	शनि 01/03/2054	बुध 13/03/2071	केतु 24/11/2087	शुक्र 28/01/2103
शनि 13/06/2039	बुध 06/06/2056	केतु 21/04/2072	शुक्र 24/09/2090	सूर्य 04/06/2103
बुध 30/12/2041	केतु 13/05/2057	शुक्र 22/06/2075	सूर्य 31/07/2091	चंद्र 04/01/2104
केतु 17/01/2043	शुक्र 12/01/2060	सूर्य 03/06/2076	चंद्र 30/12/2092	मंगल 01/06/2104
शुक्र 17/01/2046	सूर्य 30/10/2060	चंद्र 02/01/2078	मंगल 27/12/2093	राहु 02/01/2105
सूर्य 12/12/2046	चंद्र 01/03/2062	मंगल 11/02/2079	राहु 15/07/2096	00/00/0000
चंद्र 12/06/2048	मंगल 05/02/2063	राहु 18/12/2081	गुरु 21/10/2098	00/00/0000
मंगल 30/06/2049	राहु 30/06/2065	गुरु 30/06/2084	शनि 01/07/2101	00/00/0000

- ❖ उपरोक्त दशा चंद्रमा के अंशों के आधार पर दी गई है। भयात भभोग के आधार पर दशा का भोग्यकाल केतु 3 वर्ष 5 मा 25 दि होता है।
- ❖ उपरोक्त तिथियां दशा के समाप्त होने का समय दर्शाती हैं। विंशोत्तरी दशा पूरे 120 वर्ष की बिना आयुनिर्णय के दी गई हैं।

## विंशोत्तरी दशा - प्रत्यन्तर

<b>मंगल - गुरु</b> 15/12/2025 21/11/2026	<b>मंगल - शनि</b> 21/11/2026 30/12/2027	<b>मंगल - बुध</b> 30/12/2027 27/12/2028	<b>मंगल - केतु</b> 27/12/2028 25/05/2029	<b>मंगल - शुक्र</b> 25/05/2029 25/07/2030
गुरु 29/01/2026 शनि 24/03/2026 बुध 11/05/2026 केतु 31/05/2026 शुक्र 27/07/2026 सूर्य 13/08/2026 चंद्र 11/09/2026 मंगल 01/10/2026 राहु 21/11/2026	शनि 24/01/2027 बुध 22/03/2027 केतु 15/04/2027 शुक्र 21/06/2027 सूर्य 11/07/2027 चंद्र 14/08/2027 मंगल 07/09/2027 राहु 07/11/2027 गुरु 30/12/2027	बुध 20/02/2028 केतु 12/03/2028 शुक्र 11/05/2028 सूर्य 29/05/2028 चंद्र 29/06/2028 मंगल 20/07/2028 राहु 12/09/2028 गुरु 30/10/2028 शनि 27/12/2028	केतु 04/01/2029 शुक्र 29/01/2029 सूर्य 06/02/2029 चंद्र 18/02/2029 मंगल 27/02/2029 राहु 21/03/2029 गुरु 10/04/2029 शनि 04/05/2029 बुध 25/05/2029	शुक्र 04/08/2029 सूर्य 25/08/2029 चंद्र 30/09/2029 मंगल 25/10/2029 राहु 27/12/2029 गुरु 22/02/2030 शनि 01/05/2030 बुध 30/06/2030 केतु 25/07/2030
<b>मंगल - सूर्य</b> 25/07/2030 30/11/2030	<b>मंगल - चंद्र</b> 30/11/2030 01/07/2031	<b>राहु - राहु</b> 01/07/2031 13/03/2034	<b>राहु - गुरु</b> 13/03/2034 06/08/2036	<b>राहु - शनि</b> 06/08/2036 13/06/2039
सूर्य 31/07/2030 चंद्र 11/08/2030 मंगल 18/08/2030 राहु 07/09/2030 गुरु 24/09/2030 शनि 14/10/2030 बुध 01/11/2030 केतु 08/11/2030 शुक्र 30/11/2030	चंद्र 18/12/2030 मंगल 30/12/2030 राहु 31/01/2031 गुरु 28/02/2031 शनि 03/04/2031 बुध 03/05/2031 केतु 16/05/2031 शुक्र 20/06/2031 सूर्य 01/07/2031	राहु 26/11/2031 गुरु 05/04/2032 शनि 08/09/2032 बुध 26/01/2033 केतु 25/03/2033 शुक्र 05/09/2033 सूर्य 24/10/2033 चंद्र 15/01/2034 मंगल 13/03/2034	गुरु 08/07/2034 शनि 24/11/2034 बुध 28/03/2035 केतु 18/05/2035 शुक्र 11/10/2035 सूर्य 24/11/2035 चंद्र 05/02/2036 मंगल 27/03/2036 राहु 06/08/2036	शनि 17/01/2037 बुध 14/06/2037 केतु 14/08/2037 शुक्र 03/02/2038 सूर्य 27/03/2038 चंद्र 22/06/2038 मंगल 22/08/2038 राहु 25/01/2039 गुरु 13/06/2039
<b>राहु - बुध</b> 13/06/2039 30/12/2041	<b>राहु - केतु</b> 30/12/2041 17/01/2043	<b>राहु - शुक्र</b> 17/01/2043 17/01/2046	<b>राहु - सूर्य</b> 17/01/2046 12/12/2046	<b>राहु - चंद्र</b> 12/12/2046 12/06/2048
बुध 23/10/2039 केतु 16/12/2039 शुक्र 19/05/2040 सूर्य 05/07/2040 चंद्र 20/09/2040 मंगल 14/11/2040 राहु 02/04/2041 गुरु 05/08/2041 शनि 30/12/2041	केतु 21/01/2042 शुक्र 26/03/2042 सूर्य 14/04/2042 चंद्र 16/05/2042 मंगल 08/06/2042 राहु 04/08/2042 गुरु 24/09/2042 शनि 24/11/2042 बुध 17/01/2043	शुक्र 19/07/2043 सूर्य 12/09/2043 चंद्र 12/12/2043 मंगल 14/02/2044 राहु 28/07/2044 गुरु 21/12/2044 शनि 12/06/2045 बुध 14/11/2045 केतु 17/01/2046	सूर्य 03/02/2046 चंद्र 02/03/2046 मंगल 21/03/2046 राहु 10/05/2046 गुरु 22/06/2046 शनि 13/08/2046 बुध 29/09/2046 केतु 18/10/2046 शुक्र 12/12/2046	चंद्र 27/01/2047 मंगल 28/02/2047 राहु 21/05/2047 गुरु 02/08/2047 शनि 28/10/2047 बुध 13/01/2048 केतु 14/02/2048 शुक्र 15/05/2048 सूर्य 12/06/2048

## शुभाशुभ ज्ञानम्

शुभाशुभज्ञान आपको अपने मित्र एवं शत्रु वर्ग का बोध कराता है। मूलांक, भाग्यांक एवं मित्रांक से मित्रता एवं साझेदारी करने से लाभ तथा सहयोग की प्राप्ति होती है। साथ ही शुभ दिन एवं वर्ष उन्नति कारक तथा शुभ ग्रहों की दशाएं लाभदायक होती हैं। इसी प्रकार मित्रलग्न लाभदायक एवं मित्र राशि से घनिष्ठता होती है।

शुभरत्न धातु एवं रंग धारण करने से शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता बनी रहती है तथा भाग्य रत्न धारण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुभ समय में कोई भी कार्य प्रारम्भ करने से उसमें इच्छित सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही इष्टदेव का ध्यान एवं जप से मानसिक शान्ति तथा सफलता मिलती है। शुभ पदार्थ अन्न, द्रव्य आदि का दान या व्यापार शुभ दिशा में करने से वांछित लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार शुभाशुभज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग शुभफलदायक सिद्ध हो सकता है।


मूलांक	1
भाग्यांक	7
मित्र अंक	1, 4, 8, 9, 7
शत्रु अंक	3, 5, 6
शुभ वर्ष	19,28,37,46,55
शुभ दिन	रवि, गुरु, मंगल
शुभ ग्रह	सूर्य, गुरु, मंगल
मित्र राशि	कर्क, धनु
मित्र लग्न	मीन, सिंह, तुला
अनुकूल देवता	हनुमान
शुभ रत्न	पुखराज
शुभ उपरत्न	सुनहला, पीला हकीक
भाग्य रत्न	माणिक्य
शुभ धातु	कांसा
शुभ रंग	पीत
शुभ दिशा	पूर्वोत्तर
शुभ समय	संध्या
दान पदार्थ	हल्दी, पुस्तक, पीत पुष्प
दान अन्न	दाल चना
दान द्रव्य	घी

## रत्न चयन

रत्न जीवन में शुभत्व की वृद्धि के लिए धारण किए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से, रत्न अपने ग्रह की राशियों को पूर्णमात्रा में मानव शरीर में प्रवाहित कर ग्रह प्रभाव की वृद्धि करते हैं। यही कारण है कि रत्न केवल शुभ ग्रहों का ही धारण किया जाता है। ग्रह शुभ माना जाता है यदि यह लग्न, त्रिकोण या केन्द्र में स्थापित हो या स्वामी हो। यह अशुभ होता है यदि यह त्रिक भाव से संबंधित हो। मित्रों की युति या दृष्टि भी इसकी शुभता बढ़ाती है। बाधक भाव का स्वामित्व शुभता कम कर देता है। चर लग्नों में एकादश, स्थिर में नवम व द्विस्वभाव में सप्तम भाव की बाधक संज्ञा है। उपरोक्त तथ्य रत्न चयन हेतु ग्रह की शुभता दर्शाते हैं।

नीचे जन्मकुण्डली में ग्रहों की शुभता को सारणी व ग्राफ में दर्शित किया गया है। साथ ही कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में कार्य सिद्ध कर सकता है दिया गया है। विभिन्न दशाओं में विभिन्न रत्नों की शुभता भी नीचे तालिका में दी गई है। जिस ग्रह को 75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उसके रत्न हमें सर्वदा बिना दशा विचार के धारण करने चाहिए। जिन्हें 50-75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उन्हें कार्य क्षेत्र अनुसार व अनुकूल दशा में धारण करना चाहिए। जो रत्न केवल 25-50 प्रतिशत शुभता लिए हैं उनके रत्न केवल उनकी या उनके मित्रों की दशा में धारण करने चाहिए। अन्ततः जिन्हें 25 प्रतिशत से भी कम शुभता प्राप्त है वे ग्रह अपने लिए अशुभ ही समझें और उनके रत्नों को पहनने से बचना चाहिए।

रत्न	ग्रह	शुभता	क्षेत्र
पुखराज	गुरु	100%	स्वास्थ्य, सुख
माणिक्य	सूर्य	97%	स्वास्थ्य, भाग्योदय
मूंगा	मंगल	62%	पराक्रम, सन्तति सुख, कम खर्च
हीरा	शुक्र	41%	पराक्रम हानि, शत्रु व रोग, हानि
गोमेद	राहु	28%	शत्रु व रोग, पराक्रम हानि
पन्ना	बुध	25%	व्यय, दाम्पत्य कष्ट, व्यावसायिक हानि
नीलम	शनि	25%	व्यय, धन हानि, पराक्रम हानि
लहसुनिया	केतु	25%	व्यय, पराक्रम हानि
मोती	चंद्र	19%	सन्तति कष्ट, दुर्घटना



### दशानुसार रत्न विचार

दशा	समाप्ति	माणिक्य	मोती	मूंगा	पन्ना	पुखराज	हीरा	नीलम	गोमेद	लहसुनिया
केतु	30/06/1988	84%	0%	69%	25%	100%	52%	0%	3%	50%
शुक्र	30/06/2008	84%	0%	62%	38%	100%	58%	38%	41%	38%
सूर्य	01/07/2014	100%	31%	69%	25%	100%	16%	0%	3%	0%
चंद्र	30/06/2024	100%	44%	62%	38%	100%	41%	25%	3%	0%
मंगल	01/07/2031	100%	31%	75%	0%	100%	41%	25%	3%	38%
राहु	30/06/2049	84%	0%	50%	25%	100%	52%	38%	52%	0%
गुरु	30/06/2065	100%	31%	69%	0%	100%	16%	25%	28%	25%
शनि	30/06/2084	84%	0%	50%	38%	100%	52%	50%	41%	0%
बुध	01/07/2101	100%	0%	62%	50%	100%	52%	25%	28%	25%

## साढ़ेसाती विचार

चंद्रमा से जन्म कुंडली में जब गोचरवश शनि की स्थिति द्वादश, प्रथम एवं द्वितीय स्थान में होती है तो साढ़ेसाती कहलाती है। शनि की चंद्रमा से चतुर्थ एवं अष्टम भाव में स्थिति होने पर ढैया शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट देता है। लेकिन कई बार यह आश्चर्यजनक उन्नति भी प्रदान करती है। साढ़ेसाती का प्रभाव सात वर्ष एवं ढैया का प्रभाव ढाई वर्ष रहता है।

सामान्यतया साढ़ेसाती मनुष्य के जीवन में तीन बार आती है। प्रथम बचपन में द्वितीय युवावस्था में तथा तृतीय वृद्धावस्था में आती है। प्रथम साढ़ेसाती का प्रभाव शिक्षा एवं माता-पिता पर पड़ता है। द्वितीय साढ़ेसाती का प्रभाव कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति एवं परिवार पर पड़ता है परंतु तृतीय साढ़ेसाती स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव करती है।

निम्नलिखित तालिका में साढ़ेसाती का समय तथा प्रत्येक ढैया का शुभाशुभ फल इंगित किया गया है।

### प्रथम चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	01/01/1985-01/06/1985 17/09/1985-17/12/1987	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	02/06/1995-10/08/1995 16/02/1996-17/04/1998	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	17/04/1998-07/06/2000	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	07/06/2000-23/07/2002 08/01/2003-07/04/2003	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	06/09/2004-13/01/2005 26/05/2005-01/11/2006 10/01/2007-16/07/2007	-----

### द्वितीय चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	02/11/2014-26/01/2017 21/06/2017-26/10/2017	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	29/03/2025-03/06/2027 20/10/2027-23/02/2028	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	03/06/2027-20/10/2027 23/02/2028-08/08/2029 05/10/2029-17/04/2030	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	08/08/2029-05/10/2029 17/04/2030-31/05/2032	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	13/07/2034-27/08/2036	-----

### तृतीय चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	11/12/2043-23/06/2044 30/08/2044-08/12/2046	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	14/05/2054-02/09/2054 05/02/2055-07/04/2057	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	07/04/2057-27/05/2059	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	27/05/2059-11/07/2061 13/02/2062-07/03/2062	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	24/08/2063-06/02/2064 09/05/2064-13/10/2065 03/02/2066-03/07/2066	-----

### शनि का ढैया फल

#### ढैया के प्रकार

अष्टम स्थानस्थ ढैया  
साढ़ेसाती प्रथम ढैया  
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया  
साढ़ेसाती तृतीय ढैया  
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया

#### फल

अशुभ  
सम  
सम  
शुभ  
अशुभ

#### क्षेत्र

व्यय  
सुख  
सन्तति कष्ट  
शत्रु व रोग मुक्ति  
दुर्घटना

## साढ़ेसाती के उपाय

शनि की साढ़ेसाती के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिये दान, पूजन, व्रत, मंत्र आदि उपाय किये जा सकते हैं। इसके लिये शनिवार को काला कंबल, उड़द की दाल, काले तिल, चर्म-पादुका, काला कपड़ा, मोटा अनाज, तिल तथा लोहे का दान करना चाहिये। शनिदेव की पूजा एवं शनिवार का व्रत रखना चाहिये। उपवास के दिन उड़द की दाल से बनी वस्तु, चने, बेसन, काले तिल, काला नमक तथा फलों का ही सेवन करना चाहिये। साथ ही स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा शनि के निम्न मंत्र के 19000 जप संपन्न करवाने चाहिये।

**ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः ।।**

शनि की साढ़ेसाती में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक शांति एवं समृद्धि, आर्थिक सुदृढ़ता तथा कार्यक्षेत्र में उन्नति के लिये निम्नलिखित महामृत्युंजय मंत्र के 125000 जप स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा करवाने चाहिये।

**ॐ त्र्यंबकम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।  
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।।**

वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित मंत्र के प्रतिदिन 108 जप किये जा सकते हैं।

**ॐ हों जूं सः ॐ भूर्भुव स्वः ॐ ।।**

शनि की साढ़ेसाती के शुभत्व को बढ़ाने के लिये शनिवार के दिन आप 5 1/4 रत्ती का नीलम रत्न पंचधातु में (सोना, चांदी, तांबा, लोखंड, जस्ता) या घोड़े की नाल या नाव की कील से निर्मित लोहे की अंगूठी धारण करें। लोहे की अंगूठी आप दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें।

अंगूठी शुक्ल पक्ष की शनिवार की सायं सूर्यास्त के समय धारण करें। पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अति शुभ हैं। उस दिन शनिवार का उपवास भी करना चाहिए। अंगूठी धारण करने से पूर्व इसे शुद्ध दूध एवं गंगाजल में स्नान कराना चाहिए तथा धूप आदि जलाकर शनि का पूजन करना चाहिए एवं निम्न मंत्र की एक माला या 108 बार जप करना चाहिए। नीलम मध्यमा उंगली में या गले में पेन्डेंट बनाकर धारण करें।

**ॐ शं शनैश्चराय नमः ।**

अंगूठी धारण करने के पश्चात शनि की वस्तुओं का दान देना चाहिए। इससे शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आयेगी तथा आपकी सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि होगी।

श्री हनुमान चालीसा एवं श्री हनुमान अष्टक का पाठ करना श्रेष्ठ है।

## मांगलिक विचार

जब वर या कन्या की कुंडली में मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम तथा द्वादश भाव में हो तो मांगलिक दोष कहलाता है। यथोक्तम्

**लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे ।  
स्त्री भर्तुर्विनाशंच भर्ता च स्त्री विनाशनम् ।**

मांगलिक दोष लग्न से अधिक प्रबल माना जाता है लेकिन चन्द्रमा से इसका दोष लग्न की अपेक्षा अल्प होता है। यदि शास्त्रानुसार वर एवं कन्या का मांगलिक दोष भंग हो जाता है तो उनका दाम्पत्य जीवन सुख एवं प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होता है। इसके विपरीत बिना दोष भंग हुए मांगलिक वर-कन्याओं को जीवन में कई प्रकार की अनावश्यक समस्याओं तथा व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। अतः विवाह से पूर्व शुद्ध कुण्डली मिलान से इस दोष का उचित निवारण करके ही दाम्पत्य जीवन प्रारम्भ करना चाहिए। जिससे जीवन में शान्ति तथा सम्पन्नता बनी रहे।

\*\*\*\*\*

आपके जन्म समय में मंगल की स्थिति तृतीय भाव में है। यह भाव पराक्रम मित्र एवं भाई बहनों का प्रतिनिधि भाव है तथा मंगल इनका कारक है जिससे तृतीय भाव में मंगल की स्थिति प्रायः शुभ मानी जाती है। अतः इसके प्रभाव से आप एक पराक्रमी महिला होंगी तथा अपने समस्त कार्य कलापों को निर्भय होकर सम्पन्न करेंगी तथा इनमें आपको समय समय पर उचित सफलता भी प्राप्त होगी। साथ ही भाई बहनों से भी आपको आवश्यक सुख एवं सहयोग मिलेगा तथा स्वपरिश्रम एवं पराक्रम से आप संचार साधनों को भी अर्जित करेंगी।

कुंडली में तृतीयस्थ मंगल की चतुर्थ दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ेगी। इसके प्रभाव से शत्रु पक्ष को पराजित करने में आप समर्थ रहेंगी। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं मुकद्दमों या चुनाव आदि में आपको जीवन में सामान्यतया सफलताएं मिलती रहेंगी साथ ही इच्छित मात्रा में धनऐश्वर्य की भी प्राप्ति होगी। परन्तु पित गर्मी या रक्त विकार आदि से आप यदा कदा शारीरिक कष्ट की अनुभूति कर सकती हैं। नवम भाव पर सप्तम दृष्टि के प्रभाव से धर्म एवं धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि अल्प मात्रा में ही रहेगी तथा भाग्य की अपेक्षा आप कर्म करने पर अधिक विश्वास करेंगी। दशम भाव पर मंगल की दृष्टि से कार्य क्षेत्र में आप स्वपराक्रम एवं योग्यता से उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहेंगी यद्यपि इनमें आपको न्यूनाधिक समस्याओं एवं व्यवधानों का भी सामना करना पड़ेगा परन्तु अन्ततोगत्वा आप अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल रहेंगी। पिता के स्वास्थ्य की दृष्टि से यह स्थिति मध्यम रहेगी परन्तु समाज में वे एक आदरणीय पुरुष होंगे तथा सभी लोग उनसे प्रभावित रहेंगे।

इस प्रकार मंगल की इस स्थिति के प्रभाव से आपका दाम्पत्य जीवन सामान्यतया सुख शान्ति से परिपूर्ण रहेगा तथा परिवार का यथोचित पालन करने में आप समर्थ रहेंगी। साथ

ही पारिवारिक जनों से आपको यथोचित सहयोग एवं प्रोत्साहन मिलता रहेगा। जिससे उत्साह पूर्वक आप अपने शुभ एवं महत्वपूर्ण सांसारिक कार्यों को सम्पन्न करेंगी।



## कालसर्प योग

अग्रे राहुरधः केतुः सर्वे मध्यगताः ग्रहाः ।  
योगाऽयं कालसर्पाख्यो शीघ्रं तं तु विनाशय ॥

आगे राहु हो एवं नीचे केतु मध्य में सभी (सातों) ग्रह विद्यमान हो तो कालसर्प योग बनता है। अतः इस योग से ग्रसित जातकों के लिए आवश्यक है कि वे इस काल सर्प योग का निदान करा लें। जिससे कि कुंडली के शुभ योगों के फल पूर्णयता मिलते रहें।

द्वादश भावों में राहु की स्थिति के अनुसार काल सर्प योग मुख्यतः द्वादश प्रकार के होते हैं। वे हैं-

1. अनंत, 2. कुलिक, 3. वासुकि, 4 शङ्खपाल, 5. पद्म, 6. महापद्म, 7. तक्षक, 8. कर्कोटक, 9. शङ्खचूड, 10. घातक, 11. विषधर, 12. शेषनाग।

यह योग उदित अनुदित भेद से दो प्रकार के होते हैं राहु के मुख में सभी सातों ग्रह ग्रसित हो जाएं तो उदित गोलाद्ध नामक योग बनता है एवं राहु की पृष्ठ में यदि सभी ग्रह हों तो अनुदितन गोलाद्ध नामक योग बनता है।

यदि लग्न कुंडली में सभी सातों ग्रह राहु से केतु के मध्य में हो लेकिन अंशानुसार कुछ ग्रह राहु केतु की धुरी से बाहर हों तो आंशिक काल सर्प योग कहलाता है। यदि कोई एक ग्रह राहु-केतु की धुरी से बाहर हो तो भी आंशिक काल सर्प योग बनता है।

यदि राहु से केतु तक सभी भावों में कोई न कोई ग्रह स्थित हो तो यह योग पूर्ण रूप से फलित होता है। यदि राहु-केतु के साथ सूर्य या चंद्र हो तो यह योग अधिक प्रभावशाली होता है। यदि राहु, सूर्य व चंद्र तीनों एक साथ हो तो ग्रहणकाल सर्प योग बनता है। इसका फल हजार गुना अधिक हो जाता है। ऐसे जातक को काल सर्प योग की शांति करवाना अति आवश्यक होता है।

### काल सर्प योग का प्रभाव

इस योग में उत्पन्न जातक को मानसिक अशांति, धनप्राप्ति में बाधा, संतान अवरोध एवं गृहस्थी में प्रतिपल कलह के रूप में प्रकट होता है। प्रायः जातक को बुरे स्वप्न आते हैं। कुछ न कुछ अशुभ होने की आशंका मन में बनी रहती है। जातक को अपनी क्षमता एवं कार्यकुशलता का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, कार्य अक्सर देर से सफल होते हैं। अचानक नुकसान एवं प्रतिष्ठा की क्षति इस योग के लक्षण हैं।

जातक के शरीर में वात पित्त त्रिदोषजन्य असाध्य रोग अकारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोग जो प्रतिदिन क्लेश (पीडा) देते हैं तथा औषधि लेने पर भी ठीक नहीं होते हों, काल सर्प योग के कारण होते हैं।

काल सर्प योग के औपचारिक उपाय के द्वारा इन कष्टों से राहत एवं छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। जन्मपत्रिका के अनुसार जब-जब राहु एवं केतु की महादशा, अंतर्दशा आदि

आती है तब तब यह योग असर दिखाता है। गोचर में राहु व केतु का जन्मकालिक राहु-केतु व चंद्र पर भ्रमण भी इस योग को सक्रिय कर देता है। उस समय विशेष ध्यान देकर पूजा अर्चनादि श्रद्धा विश्वास के साथ करें, अवश्य लाभ होगा। कालसर्प योग यंत्र के सम्मुख 43 दिन तक सरसों के तेल का दीया जलाने से भी इन कष्टों से राहत एवं छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है।

### जातक पर काल सर्प योग का प्रभाव

आपकी जन्मकुण्डली में महापद्म नामक कालसर्प योग विद्यमान है। लेकिन यह केवल आंशिक रूप में विद्यमान है। फलस्वरूप जातक यात्रा बहुत करता है पर आंशिक रूप में ही सफलता मिलती है। कभी रोग व्याधि जातक के शरीर में लग जाती है, जिसमें थोड़ा अधिक खर्च हो जाने के कारण आर्थिक स्थिति नाजुक हो जाती है। चन्द्रमा के प्रभावित होने के कारण जातक का जीवन मानसिक रूप से थोड़ा बहुत परेशान रहता है एवं शोक दुःख आदि भी घेर लेता है। जातक को प्रेम प्रसंग में विशेष रूप से सफलता नहीं मिलती है। मनोभिलाषित पत्नी प्रायः नहीं मिलती। घर में सुख शान्ति का थोड़ा बहुत अभाव रहता है।

इस योग के प्रभाव से जातक का चरित्र थोड़ा सन्देहास्पद रहता है। जातक के मन में आंशिक रूप से निराशा की भावना जागृत हो उठती है और अपने मन में दूसरों के प्रति शत्रुता पालकर रखने वाला होता है। धर्म की आंशिक क्षति होती है। जातक कभी-कभी बुरा स्वप्न भी देखता है। आत्मबल कमजोर रहता है। जातक राजदण्ड का कभी भागीदार बन जाता है। जातक का जीवन शत्रुओं के षड्यन्त्र से घिरा रहता है और उस षड्यन्त्र में आंशिक रूप से शत्रुओं की विजय होती है। इस योग से प्रभावित व्यक्ति को थलसेना में नहीं जाना विशेष रूप से हितकर है। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी जातक एक अच्छा दलील देने वाला एवं वकालत करने वाला तथा राजनीति के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाला होता है।


यदि आप कभी उपरोक्त परेशानी महसूस करते हैं तो निम्नलिखित उपाय करें। अवश्य लाभ मिलेगा।

1. काल सर्प दोष निवारण यंत्र घर में स्थापित करके, इसका नियमित पूजन करें।
2. ॐ नमः शिवाय' का प्रतिदिन 108 बार जप करें। कुल जप संख्या- 21000।
3. ताम्बे के लोटे में नाग के जोड़े बहते पानी में एक बार प्रवाहित करें।
4. नवनाग स्तोत्र का एक वर्ष तक प्रतिदिन पाठ करें।
5. राहु के महादशा, अन्तर्दशा आने पर राहु मन्त्र के जाप कम से कम प्रतिदिन 108 बार करें। जप संख्या अट्ठारह हजार (18000) है।
6. शुभ मुहूर्त में अभिमन्त्रित गोमेद धारण करें।
7. श्रावणमास में 30 दिन तक महादेव का अभिषेक करें।
8. सरस्वती जी की एक वर्ष विधिवत उपासना करें।
9. राहु कवच एवं स्तोत्र का पाठ करें।
10. प्रत्येक सोमवार को दही से भगवान शंकर पर - ॐ हर हर महादेव कहते हुए अभिषेक करें। यह केवल 16 सोमवार तक करें।
11. रसोईघर में बैठकर भोजन करें।

12. शुभ मुहूर्त में बहते पानी में कोयला तीन बार प्रवाहित करें।
13. गोमेद, सुवर्ण, तिल, सरसों, नीलवस्त्र, खड़्ग, कम्बल, आदि समय-समय पर दान करें।
14. शुभ मुहूर्त में मुख्य द्वार पर चाँदी का स्वस्तिक एवं दोनो ओर धातु से निर्मित नाग चिपका दें।
15. हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करें।

#### विशेष

ध्यान रखें कालसर्पयोग का पूजन केवल श्रीखण्ड चन्दन से करें। कुंकुम, सिन्दूर, रोली आदि का प्रयोग न करें। तिरुपति बालाजी के पास कालाहस्ती शिव मंदिर में जाकर कालसर्प योग की शांति का उपाय विधि-विधान से एक बार करें अथवा 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाकर पूजा करें जैसे - कि सौराष्ट्र गुजरात में सोमनाथ मंदिर, महाराष्ट्र के नासिक में त्रयंबकेश्वर मंदिर, उज्जैन, भीमाशंकर, नागेश्वर, रामेश्वर, वगैरे।



# पितृदोष विचार

## पितृदोष क्या है ?

हमारे पूर्वज या परिवार के सदस्य मृत्योपरान्त पितृ संज्ञा प्राप्त करते हैं। पितृ हमारे और भगवान के बीच की कड़ी होते हैं। यदि ये प्रसन्न होते हैं तो जातक सुखी जीवन भोगता है, लेकिन यदि किसी कारणवश ये अप्रसन्न हो जाते हैं तो जातक को अनेक प्रकार की व्याधियाँ व कष्ट झेलने पड़ते हैं।

कालांतर में पितृ या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, या पृथ्वी लोक पर पुनः जन्म ले लेते हैं। यदि परिवार के सभी पितरों का पुनर्जन्म या मोक्ष हो गया हो तो कुछ समय के लिए उस परिवार के कोई पितृ नहीं होते। ऐसे में जातक सुख दुख अपनी कुंडली अनुसार प्राप्त करता है। अतः परिवार के सदस्यों को चाहिए कि जब तक वे पितृ लोक में हैं तब तक तर्पणादि से उनकी सेवा करें। यदि पितृ प्रसन्न रहते हैं तो आशीर्वाद स्वरूप जातक चहुमुखी प्रगति प्राप्त करता है।

पितृ अप्रसन्न, दुःखी एवं अतृप्त होते हैं यदि किसी पूर्वज की अंतिम इच्छा पूर्ण न हुई हो, या किसी के द्वारा श्रापित हों या असामयिक मृत्यु हो गई हो। पितृ योनि में रहते हुए भी उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। यदि परिवार के सदस्य तर्पणादि द्वारा भोजन नहीं देते हैं तो वे भूख से व्याकुल हो जाते हैं। पितृ विभिन्न प्रकार के कष्टों की अनुभूति करते हैं जब तक कि जातक पितरों की शांति हेतु पूजन-पाठ, पिंडदान, तर्पण आदि न करे।

पितृ दोष अपने कर्मों के कारण न हो करके, अपने माता-पिता या पूर्वजों के कर्मों के कारण होते हैं, क्योंकि यह दोष तो जातक के जन्म से जन्मपत्री में विद्यमान होता है जबकि कर्म तो जन्म के बाद ही बनते हैं। अतः पितृदोष ऐसा दोष है जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता, केवल लक्षण दर्शित होते हैं। जन्मपत्री में भी शुभ दशा व गोचर के योग होते हुए भी हमें हमारे कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता, या घर में सदैव कलह, अशांति, धन की कमी व बीमारी लगी रहती है। संतान नहीं होती या संतान विक्षिप्त होती है, बच्चों के विवाह में अड़चन आती है या उनके विकास में अवरोध आते हैं। अतः जब भी किसी प्रकार की समस्या बार-बार आती है एवं कोई कारण नजर न आता हो तो हमें पितृ दोष की शांति करवानी चाहिए जब तक कि वातावरण और परिस्थितियां अनुकूल न हो जाएं।

## पितृदोष लक्षण

1. परिवार में आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होना।
2. आनुवांशिक बीमारी होना और लंबी अवधि तक बीमारी का चलना।
3. परिवार में शारीरिक रूप से विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना।
4. परिवार में बच्चों द्वारा असम्मान या प्रताड़ना का व्यवहार करना।
5. गर्भ धारण न होना या गर्भपात होना।
6. परिवार के किसी सदस्य का विवाह न होना।

7. परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा-फसाद होना।
8. कभी खत्म न होने वाली गरीबी परिवार में हो जाना।
9. बुरी आदतों की लत लग जाना।
10. परिवार में बार-बार केवल कन्या संतान का जन्म होना।
11. शिक्षा में बाधाएं आना।
12. स्वप्न में सांप दिखाई देना।
13. माथे पर गंदी करतूतों का कलंक लगना।
14. परिवार में किसी बुजुर्ग के बाल सफेद होने के पश्चात पीले होने लगना या काली खांसी होना।
15. परिवार के किसी सदस्य को स्वप्न में पूर्वज द्वारा खाना या कपड़े मांगते हुए दिखना।

### पितृ की पहचान :

1. श्रीमद् भगवद् गीता के ग्यारहवें अध्याय का पाठ करें तो आपको कुछ दिनों में ही स्वप्न में पितृ दर्शन होंगे।
2. रात को सोने से पहले हाथ पैर धोकर अपने मन में अपने पितृ से प्रार्थना करें कि जो भी मेरे पितृ हैं वे मुझे दर्शन दें।
3. यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है तो अपने पितृ को याद कीजिए और उन्हें कहें कि यदि आप हैं तो मेरा अमुक कार्य हो जाए। मैं आपके लिए शांति पाठ कराउंगा। आपकी ऐसी प्रार्थना से कार्य सिद्धि हो जाने पर यह प्रमाणित हो जाएगा कि आपको पितृ शांति करवानी चाहिए।

### पितृ दोष उपाय :

1. श्राद्ध पक्ष में मृत्यु तिथि के दिन तर्पण व पिंडदान करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं व वस्त्र/दक्षिणा आदि दें।
2. यदि मृत्युतिथि न मालूम हो तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन तर्पण व पिंडदानादि कर्म करें।
3. प्रत्येक अमावस्या विशेषतः सोमवती अमावस्या को पितृभोग दें। इस दिन गोबर के कंडे जलाकर उसपर खीर की आहुति दें। जल के छींटे देकर हाथ जोड़ें व पितृ को नमस्कार करें।
4. सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें व गायत्री मंत्र का जप करें।
5. पीपल के पेड़ पर जल, पुष्प, दूध, गंगाजल व काले तिल चढ़ाकर पितृ को याद करें, माफी और आशीष मांगें।
6. रविवार के दिन गाय को गुड़ या गेहूं खिलाएं।
7. लाल किताब के अनुसार परिवार में जहां तक खून का रिश्ता है जैसे दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, ताया, बहन, बेटी, बुआ, भाई सबसे बराबर-बराबर धन, 1, 5 या दस रुपए लेकर मंदिर में दान करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है।
8. हरिवंश पुराण का श्रवण और गायत्री जप पितृ शांति के लिए लोकप्रसिद्ध है।
9. गया या त्र्यंबकेश्वर में त्रिपिंडी श्राद्ध या नन्दी श्राद्ध करें।
10. नारायणबलि पूजा करवाएं।

11. पितृ गायत्री का अनुष्ठान करवाएं -

**ॐ देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च ।**

**नमः स्वाहायै स्वधायैः नित्यमेव नमो नमः ॥**

12. पितृ दोष निवारण उपायों में गया में पिंडदान, गया श्राद्ध तथा पितृ भोग अर्पण आदि क्रियाएं करते हुए उपरोक्त पितृ गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए।

13. श्री कृष्ण मुखामृत गीता का पाठ करें।

### **पितृ पूजा के लिए आवश्यक निर्देश :**

1. पितरों को मांस वाला भोजन न अर्पित करें।
2. पूजा के दिन स्वयं भी मांस भक्षण न करें।
3. पितृ पूजा में स्टील, लोहा, प्लास्टिक, शीशे के बर्तन का प्रयोग न करें। मिट्टी या पत्तों के बर्तनों का ही प्रयोग करें।
4. पितृ पूजा में घंटी न बजाएं।
5. पितृ पूजा करने वाले व्यक्ति की पूजा में व्यवधान न डालें।
6. बुजुर्गों का सम्मान करें।
7. पितरों के निमित्त किये जाने वाले गौ-दान से पितृ तृप्त होते हैं।
8. घर में पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर विशेष पवित्रता रखें। यह स्थान पितृ का स्थान माना जाता है।
9. पितृ कर्म हेतु साल में 12 मृत्यु तिथि, 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा, 12 संक्रांति, 12 वैधृति योग, 24 एकादशी व श्राद्ध के 15 दिन मिलाकर कुल 99 दिन होते हैं।

### **आपकी कुण्डली में पितृदोष**

आपकी कुण्डली में किसी भी प्रकार का पितृदोष विद्यमान नहीं है, अतः आपको जीवन में पितृदोष के कारण कष्ट या परेशानी नहीं होगी।

### **नोट :**

त्रिपिण्डी श्राद्ध एवं नारायण नाग बली पितृदोष के लिए मुख्य उपाय हैं। यह सूर्यबकेश्वर में विशेष रूप से कराये जाते हैं। त्रिपिण्डी श्राद्ध में आटे को पानी में मांढ़ कर पुतले के रूप में पूर्वजों के प्रतीकात्मक पिंड बना लिये जाते हैं, उन पर मंत्रों का पाठ किया जाता है। अंत में अस्थि विसर्जन के समान उनको जल में प्रवाह कर दिया जाता है।

नारायण नागबलि, पूर्वजों के मोक्ष व उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कराया जाता है। इसमें दो दिन श्मशान क्रिया होती है व तीसरे दिन मांगलिक पूजा की जाती है। यदि पितृदोष के कारण संतान बाधा या विवाह बाधा आदि होती है तो इस उपाय के पश्चात जातक बाधामुक्त हो जाता है और काम स्वतः बनने लगते हैं।

## ग्रह फल

### सूर्य

लग्न (प्रथम) में सूर्य हो तो जातक स्वाभिमानी, चंचल, कृशदेही, प्रवासी उन्नत नासिका, विशाल ललाटवाला, पित्त-वातरोगी, शूरवीर, अस्थिर सम्पत्तिवाला एवं अल्पकेशी होता है।

धनु राशि में रवि हो तो जातक विवेकी, योगमार्गरत, बुद्धिमान्, धनी, आस्तिक, व्यवहार कुशल, दयालु, शान्त, लोकप्रिय एवं शीघ्र क्रोधित होने वाला होता है।

आपके जन्म समय में सूर्य की स्थिति प्रथम भाव में स्थित है। अतः आपके पिता का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा एवं उनकी आयु भी दीर्घ होगी। आपके प्रति उनके हृदय में वात्सल्य भाव रहेगा तथा जीवन में समस्त शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में वे आपको अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। साथ ही आप जीवन में पिता के द्वारा यश अर्जित करने में भी सफल रहेंगी। इसके अतिरिक्त पिता के द्वारा आपके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान भी रखा जाएगा।

आप भी उनके प्रति हार्दिक सम्मान तथा आदर प्रदान करेंगी तथा उनकी सेवा एवं आज्ञा पालन करने के लिए सर्वदा तत्पर रहेंगी। आपके परस्पर संबंध मधुर रहेंगे तथापि यदा कदा अल्प मात्रा में सैद्धान्तिक मतभेद विद्यमान रहेंगे जिससे यदा कदा विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। साथ ही आप जीवन में उन्हें अपना पूर्ण सहयोग तथा सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर रहेंगी।

### चन्द्र

पंचमभाव में चन्द्रमा हो तो जातक सदाचारी, कन्यासन्ततिवान्, चंचल सट्टे से धन कमानेवाला एवं क्षमाशील होता है।

मेष राशि में चन्द्रमा हो तो जातक स्थिर सम्पत्तिवान्, शूर, दृढ़ शरीरवाला, बन्धुहीन, कामी, उतावला, जलभीरु, यात्रा करने का शौकीन ,आत्माभिमानी एवं साहसी होता है।

आपके जन्म काल में चन्द्रमा पंचम भाव में स्थित है। अतः आप माता की परम प्रिय रहेंगी। उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा एवं आयु भी लम्बी होगी। धन धान्य से वे सर्वदा युक्त रहेंगी तथा जीवन में आपको प्रत्येक क्षेत्र में अपना सहयोग प्रदान करेंगी। साथ ही कला, नीति, विद्या आदि में भी आपको नित्य प्रोत्साहित करती रहेंगी एवं इनकी वृद्धि में उनका मुख्य सहयोग रहेगा। वे स्वभाव से भी अत्यन्त सुशील होंगी तथा आपको नित्य अच्छी शिक्षाएं देती रहेंगी।

आप की भी उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा एवं सम्मान की भावना रहेगी एवं उनकी आज्ञापालन के लिए नित्य तत्पर रहेंगी। जीवन में उनकी सेवा करना अपना कर्तव्य समझेंगी तथा अवसरानुकूल उनको वांछित आर्थिक या अन्य प्रकार से सहयोग एवं सहायता प्रदान

करेंगी। आपके संबंध मधुर रहेंगे तथा किसी भी प्रकार से आपकी मतभेद नहीं रहेंगे।

### मंगल

तृतीयभाव में मंगल हो तो जातक कटुभाष, भ्रूकष्टकारक, प्रदीप्त जठराग्निवाला, बलवान्, बन्धुहीन, सर्वगुणी, साहसी, धैर्यवान् प्रसिद्ध एवं शूरवीर होता है।

कुम्भ राशि में मंगल हो तो जातक व्यसनी, लोभी, सट्टे से धननाशक, आचारहीन, मत्सरवृत्ति एवं बुद्धिहीन होता है।

आपके जन्म के समय में मंगल की स्थिति तृतीय भाव में है अतः आपके भाई बहिनों का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा तथा शक्त, साहस एवं पराक्रम का भाव उनमें विद्यमान रहेगा। साथ ही यदा कदा शारीरिक व्याकुलता की भी उनको अनुभूति होगी। धन सम्पत्ति का उनके पास अभाव नहीं रहेगा एवं जीवन में समस्त शुभ तथा महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र में वे आपको अपना सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही सुख दुःख के समय में भी आप उनसे पूर्ण सहायता प्राप्त करेंगी।

आप भी उनके प्रति हमेशा स्नेह का भाव रखेंगी एवं उनकी अवसरानुकूल सहायता करने के लिए तत्पर रहेंगी। आपके आपसी संबंध मधुर रहेंगे परन्तु यदा कदा सैद्धान्तिक मतभेदों के कारण इसमें तनिक कटुता या तनाव भी आयेगा लेकिन कुछ समय के उपरान्त सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही आप उनके सुख दुःख की सहयोगी रहेंगी एवं यथाशक्ति उनको अपनी ओर से आर्थिक या अन्य प्रकार से सहयोग देती रहेंगी।

### बुध

बारहवें भाव में बुध हो तो जातक अल्पभाषी, विद्वान्, आलसी धर्मात्मा, वकील, सुन्दर, वेदान्ती, लेखक, दानी एवं शास्त्रज्ञ होता है।

वृश्चिक राशि में बुध हो तो जातक व्यसनी, दुराचारी, मुखर्ष, ऋणी भिक्षुक, अनैतिक चरित्र, रतिक्रिया की अति करने वाला, गुप्तांगों के रोगों से पीड़ित, स्वार्थी एवं अपशब्द बोलने वाला होता है।

### गुरु

लग्न (प्रथम) में गुरु हो तो जातक विद्वान् दीर्घायु, ज्योतिषी कार्यपरायण, लोकसेवक, तेजस्वी, प्रतिष्ठित, स्पष्टवक्ता, स्वाभिमानी, सुन्दर, सुखी, विनीत, पुत्रवान् धनवान्, राज्यमान, सुन्दर एवं धर्मात्मा होता है।

धनु राशि में गुरु हो तो जातक धनी, प्रभावशाली, विद्वान्, विश्वस्त, सज्जन, दानशील संगठनकर्ता, अच्छा वक्ता, धर्माचार्य, दम्भी, रतिप्रेमी एवं धूर्त होता है।

## शुक्र

तृतीय भाव में शुक्र हो तो जातक विद्वान्, कलाकार, आलसी, कृपण, धनी, सुखी, पराकमी, भाग्यवान्, बहने भाईयों से अधिक एवं पर्यटनशील होता है।

कुम्भ राशि में शुक्र हो तो जातक शान्तिप्रिय, दूसरों को सहायता करने वाला, सच्चरित्र, सुन्दर, लोकप्रिय, चिन्ताशील एवं रोग से सन्तप्त होता है।

## शनि

बारहवें भाव में शनि हो तो जातक आलसी, दुष्ट, व्यसनी, व्यर्थ व्यय करने वाला, अपस्मार, उन्माद का रोगी, मातुलकष्टदायक, अविश्वासी एवं कटुभाषी होता है।

वृश्चिक राशि में शनि हो तो जातक संकीर्ण विचारों वाला, हिंसक, कठोरध्दय, उतावला, कमजोर स्वास्थ्य, बुरी आदतें, दुःखी, विष से खतरा, निर्धन स्त्रीहीन, कोधी, कठोर एवं लोभी होता है।

## राहु

षष्ठभावे में राहु हो तो जातक शत्रुहन्ता, कमरदर्द पीड़ित, अरिष्टनिवारक, विदेशियों से लाभ, पराकमी, बड़े-बड़े कार्य करनेवाला, दीर्घायु, साहसी, धनी एवं प्रसिद्ध होता है।

वृष राशि में राहु हो तो जातक सुखी, चंचल, कुरूप, आवेशपूर्ण स्वभाव एवं धनी होता है।

## केतु

बारहवें भाव में केतु हो तो जातक चंचल बुद्धि, धूर्त, ढग तांत्रिक, अतव्ययी निर्बल स्वास्थ्य, पागलपन, मोक्ष प्राप्ति, अविश्वासी एवं जनता को भूल-प्रेतों की जानकारी द्वारा ढगने वाला होता है।

वृश्चिक राशि में केतु हो तो जातक धूर्त, वाचाल, कुष्ठरोगी, कोधी निर्धन एवं व्यसनी होता है।

## दशा विश्लेषण

महादशा :- मंगल  
( 30/06/2024 - 01/07/2031 )

मंगल की महादशा 30/06/2024 को आरम्भ होगी और 01/07/2031 को समाप्त होगी। इसकी अवधि 7 वर्षों की होगी। आपकी जन्मकुण्डली में मंगल तृतीय भाव में स्थित है। नवम, दशम तथा षष्ठम भावों पर मंगल की दृष्टि है। इसके पूर्व चन्द्र की 10 वर्ष की दशा चल रही थी। आपको शत्रुओं पर विजय, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, मातृ-पक्ष से लाभ आदि की संभावना है। मंगल की इस दशा के दौरान आपको शक्ति तथा ओज और भाइयों से सुख मिलेगा और जीवन में उन्नति होगी।

स्वास्थ्य :

इस दशा के दौरान आप का स्वास्थ्य अति उत्तम रहेगा। आप में जीवन-शक्ति तथा ऊर्जा प्रचुर मात्रा में होगी और आप अत्यन्त उत्साही होंगे। आपमें पहल-शक्ति तथा साहस भी पर्याप्त होगा और आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आपको सरदर्द, ज्वर, संक्रामण, पित्त-दोष अथवा गले से सम्बद्ध मौसमी बीमारियाँ हो सकती हैं। किन्तु, ये मामूली बीमारियाँ हैं। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।

अर्थ तथा व्यवसाय :

आप कठिन परिश्रम से अपने भविष्य का निर्माण स्वयं करेंगे। आप प्रगति करेंगे और आपकी कमाई अच्छी होगी। आपके प्रतिद्वन्दी आपके मार्ग में बाधाएँ खड़ी कर सकते हैं और आपके मातृ-पक्ष के सम्बन्धियों के लिए समय कष्टकर हो सकता है। आपके लिए अदालत के मामलों और मुकदमों का निपटारा करा लेना उचित होगा। अपनी जीविका के लिये यान्त्रिकी अभियंत्रण, सैन्य सेवाओं, चिकित्सा-कार्य, दन्तचिकित्सा-कार्य औद्योगिक-प्रतिष्ठानों में रोजगार आदि का चयन कर सकते हैं। लौह-इस्पात, खेल के सामान, ताम्बे, खनिज पदार्थों तथा दवाओं का व्यापार लाभदायक हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को लाभ होगा, उनकी पदोन्नति होगी, उच्चाधिकारियों का अनुग्रह प्राप्त होगा और कार्य स्थान में वातावरण अनुकूल रहेगा। व्यवसाय व्यापार से जुड़े लोगों के व्यवसाय में उन्नति तथा आय और लाभ में वृद्धि होगी। आप अपने ही प्रयासों से बहुत प्रगति करेंगे।

वाहन, यात्राएँ, सम्पत्ति :

शुक्र की अन्तर्दशा के कारण आपको सुखों की प्राप्ति होगी। इस अन्तर्दशा के फलस्वरूप, सुख-आराम तथा वाहनों की प्राप्ति की सम्भावना है।

शिक्षा :

इस दशा के दौरान आपकी शिक्षा उत्तम होगी। आपको कुछ आर्थिक पुरस्कार प्राप्त होगा। गणित, विज्ञान, संचार-माध्यमों से सम्बद्ध विषय आदि में आपकी रुचि होगी। आप खेलों, वाद-विवादों (चर्चा-परिचर्चाओं) तथा बाहरी गतिविधियों में भाग लेंगे। आपको परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। आपके प्रतिद्वन्दी आपको कड़ी टक्कर देंगे।

परिवार :

अपने बच्चों के साथ आपका संबंध उत्तम रहेगा। वे अपने कार्यों में बहुत अच्छा करेंगे, आपको उनसे सुख मिलेगा तथा आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। आपके जीवन साथी को समृद्धि तथा सम्बन्धियों से सहायता की प्राप्ति और जीवन में उन्नति होगी। आपके साझेदार के साथ आपका सम्बन्ध अच्छा रहेगा। आपकी माता की यात्रा होगी और आध्यात्मिक कार्यों में व्यय होगा। आपके पिता को साझेदारी और यात्रा में लाभ होगा। आपके छोटे भाई-बहनों को ख्याति, शक्ति तथा अधिकार की प्राप्ति होगी जबकि बड़े भाई-बहनों को सफलता तथा सुख मिलेगा और निवेश में लाभ होगा। आपका उनके साथ सम्बन्ध अच्छा रहेगा। आपके मित्र बहुत अच्छे स्वभाव के होंगे जो आपकी बड़ी सहायता करेंगे और आपका उनके साथ समय सुखद बीतेगा।

अन्तर्दशा :

मंगल की मुख्य दशा में मंगल की अन्तर्दशा के फलस्वरूप आपको यश, ख्याति और भाई से सुख की प्राप्ति होगी और आपकी यात्राएँ होंगी। राहु के कारण कुछ समस्याएँ आएंगी। बृहस्पति की अन्तर्दशा के फलस्वरूप आपको लाभ मिलेगा। लग्नेश शनि की अन्तर्दशा के फलस्वरूप आपको शक्ति, अधिकार, यश, ख्याति और समृद्धि की प्राप्ति होगी और आप यात्रा पर जाएंगे। बुध के कारण आपकी शिक्षा उत्तम होगी और जीवन में कुछ परिवर्तन होंगे। केतु की अन्तर्दशा कुछ समस्याएँ उत्पन्न करेगी। शुक्र की अन्तर्दशा के फलस्वरूप समृद्धि और सम्पत्ति की प्राप्ति होगी और सूर्य की अन्तर्दशा के कारण साझेदारी में लाभ होगा। चन्द्र की अन्तर्दशा के कारण स्वास्थ्य कुछ खराब हो सकता है।

**अंतर्दशा :- मंगल - गुरु  
( 15/12/2025 - 21/11/2026 )**

आपकी मंगल की महादशा 30/06/2024 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में तीसरी अंतर्दशा बृहस्पति की होगी जिसकी अवधि 11 मास 6 दिन रहेगी। आपके लिए यह 15/12/2025 को प्रारंभ होकर 21/11/2026 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी बृहस्पति विवेक, संतान और आध्यात्मिकता का कारक है।

इस अवधि में आपको सब सुख उपलब्ध रहेंगे। उच्चपद पर आसीन हो सकते हैं। धन और सम्मान में वृद्धि होगी। शत्रुओं पर विजय होगी। कार्यक्षेत्र में अचानक सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। संतान का जन्म संभव है। विवाह हो सकता है। चुनाव में या कार्यों में सफलता मिल सकती है। मुकदमे में विजय होगी। घरेलू सुख रहेगा। लंबी यात्रा या तीर्थयात्रा संभव है। नये अवसर उपलब्ध होंगे।

आपके जीवनसाथी को उच्चपद और धन का लाभ हो सकता है। पिता को सट्टेबाजी से लाभ संभव है। माता को सब सुविधाएं उपलब्ध होंगी, तीर्थयात्रा करेंगी। आपके भाई-बहन धन कमाएंगे; कार्यक्षेत्र में सफल रहेंगे; उनकी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी।

आपकी संतान को परीक्षा में सफलता मिलेगी, ज्ञानार्जन करेंगे। अगर वे सेवारत हैं तो समृद्ध बनेंगे, लंबी यात्राएं होंगी, प्रसिद्ध होंगे।

अगर आप सेवारत हैं तो अचानक लाभ और सकारात्मक परिवर्तन का योग है। परामर्शदाता अचल संपत्ति क्रय करेंगे; धनी बनेंगे। व्यापारियों के लाभ में वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य और कार्यक्षमता उत्तम होंगे। शुभत्व में वृद्धि के लिए पीले अनाज, स्वर्ण और हल्दी का दान करें।

**अंतर्दशा :- मंगल - शनि  
( 21/11/2026 - 30/12/2027 )**

आपके लिए मंगल की महादशा 30/06/2024 को आरंभ हुई थी। इस महादशा में चौथी अंतर्दशा शनि की होगी जिसकी अवधि 1 वर्ष 1 मास 9 दिन रहेगी। आपके लिए यह 21/11/2026 को प्रारंभ होकर 30/12/2027 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी शनि आयु, सेवा और पश्चिम दिशा का कारक है।

इस अवधि में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। शत्रुओं को परास्त करेंगे। कार्यालय उत्तम होगा। मामा पक्ष के लोगों से लाभ होगा। यात्रा, सौभाग्य और धन का संकेत है। अध्यात्म में रुचि हो सकती है। पिता से संबंध मधुर रहेंगे; संतान से सुख मिलेगा। धन संचित होगा। घरेलू जीवन सुखी रहेगा, सब सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

आपके जीवनसाथी का कार्यालय उत्तम होगा। पिता की अचल संपत्ति में वृद्धि हो सकती है, उससे आय में बढ़त होगी। माता की यात्रा हो सकती है; उनके धन में वृद्धि होगी।

आपके भाई-बहनों को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना होगा, उन्हें प्रसिद्धि मिलेगी, धन का संचय होगा।

आपकी संतान के जीवन में अप्रत्याशित परिवर्तन आ सकते हैं। अगर वे सेवारत हैं तो तबादला हो सकता है।

अगर आप सेवारत हैं तो किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। परामर्शदाताओं को परिश्रम करना होगा, लघु यात्राएं हो सकती हैं। व्यापारी धनी बनेंगे।

स्वास्थ्य, विशेषकर नेत्रों का ध्यान रखें। अरिष्ट से बचाव के लिए शनि मंत्र का जाप करें।

ॐ शं शनैश्चराय नमः

**अंतर्दशा :- मंगल - बुध  
( 30/12/2027 - 27/12/2028 )**

आपके लिए मंगल की महादशा 30/06/2024 को प्रारंभ हुई थी। इसमें पांचवी अंतर्दशा बुध की है जिसकी अवधि 11 मास 27 दिन है। आपके लिए यह 30/12/2027 को प्रारंभ होकर 27/12/2028 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी बुध वाणी, शिक्षा और सम्मान का कारक है।

इस अवधि में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। एकांत में किये काम लाभप्रद रहेंगे। ध्यान, तंत्र आदि में रुचि हो सकती है। लंबी यात्रा या विदेशयात्रा से लाभ हो सकता है। आयात-निर्यात में सफल हो सकते हैं। शत्रुओं पर विजयी रहेंगे। कार्यक्षेत्र में उन्नति के बहुत से अवसर मिलेंगे। धर्म में रुचि रहेगी। स्वास्थ्य उत्तम होगा। किराये आदि से आमदनी अच्छी हो सकती है; किरायेदार सहयोग करेंगे।

आपके जीवनसाथी कार्यक्षेत्र में उन्नति करेंगे; स्वास्थ्य उत्तम होगा। आपके पिता अचल संपत्ति क्रय कर सकते हैं। माता की समृद्धि बढ़ेगी, लंबी यात्राएं होंगी, धर्म में ध्यान लगाएंगी। आपके भाई-बहनों को नौकरी में तरक्की मिलेगी, सम्मान बढ़ेगा, कार्यों में उन्नति होगी।

आपकी संतान के जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकता है; शिक्षा पूर्ण हो सकती है या नये पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। अगर वे सेवारत हैं तो तबादला हो सकता है या नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, अचानक लाभ संभव है।

अगर आप सेवारत हैं तो सामूहिक कार्य से लाभ होगा। परामर्शदाताओं को जनता से लाभ होगा। व्यापारियों के कार्यक्षेत्र में सुविधाएं बढ़ेंगी।

आंख, पैर और स्नायुतंत्र के रोगों से बचाव करें। अरिष्ट से बचाव के लिए बुध के गायत्री मंत्र का जाप करें।

**अंतर्दशा :- मंगल - केतु  
( 27/12/2028 - 25/05/2029 )**

आपके लिए मंगल की महादशा 30/06/2024 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में छठी अंतर्दशा केतु की है जिसकी अवधि 4 मास 27 दिन रहेगी। आपके लिए यह 27/12/2028 को प्रारंभ होकर 25/05/2029 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी केतु नाना और मोक्ष का कारक है।

इस अवधि में आप उत्तम कार्य करेंगे; प्रसिद्धि और सम्मान पाएंगे। नौकरी में प्रोन्नति मिल सकती है। व्यापार में तरक्की होगी। विदेश में निवास हो सकता है। अगर अध्ययनरत हैं तो कुछ परिवर्तन हो सकता है। अध्यात्म में रुचि हो सकती है। अकेले किये कार्य सफलता दिलाएंगे। मामापक्ष के लोगों से लाभ हो सकता है। सहकर्मी और मातहत सहयोग करेंगे। रिश्तेदार प्रसन्न रहेंगे।

आपके जीवनसाथी लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, उन्हें मामा से लाभ होगा। आपके पिता की अचल संपत्ति में वृद्धि होगी, सब सुख-साधन उपलब्ध रहेंगे। माता भाग्यशाली होंगी, सुख के सब साधन प्राप्त होंगे। आपके भाई-बहन कार्यक्षेत्र में उन्नति करेंगे, लाभ और सुविधाओं में वृद्धि होगी, घरेलू सुख रहेगा।

आपकी संतान के वातावरण में परिवर्तन हो सकता है। अगर वे कार्यरत हैं तो अप्रत्याशित लाभ हो सकता है, पराविद्या में रुचि ले सकते हैं।

अगर आप सेवारत हैं तो उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे। परामर्शदाताओं को लक्ष्य पाने के लिए परिश्रम करना होगा। व्यापारियों के कर्मचारियों से उत्तम संबंध रहेंगे।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। नेत्रों और पैरों का ध्यान रखें। शुभत्व में वृद्धि के लिए भूरा कुत्ता पालें।

**अंतर्दशा :- मंगल - शुक्र  
( 25/05/2029 - 25/07/2030 )**

आपके लिए मंगल की महादशा 30/06/2024 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में सातवीं अंतर्दशा शुक्र की होगी जिसकी अवधि 1 वर्ष 2 मास होगी। आपके लिए यह 25/05/2029 को प्रारंभ होकर 25/07/2030 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी शुक्र सौंदर्य, कला और नफासत का कारक है।

इस अवधि में आपकी लघु यात्राएं होंगी, बहुत से मित्र होंगे। मित्रों से लाभ होगा। धन में वृद्धि होगी, विवाहित जीवन सुखी रहेगा। सफलता आसानी से मिल जाएगी। कला, संगीत आदि में रुचि बढ़ेगी। जीवनसाथी, संतान और भाई-बहनों से सुख मिलेगा। पिता से संबंध मधुर रहेंगे। समाजसेवा और दानकर्म में रुचि लेंगे।

आपके जीवनसाथी की लंबी यात्रा हो सकती है, सरकार से सहयोग मिलेगा।

आपके पिता का स्वास्थ्य उत्तम होगा; शत्रुओं पर विजय होगी। माता सुख-सुविधा संपन्न होंगी। भाई-बहनों को उच्चपद, धन, प्रसन्न घरेलू जीवन, संतान से सुख, निवेश से लाभ का संकेत है।

आपकी संतान सफल होगी, उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और शिक्षा उत्तम होगी। अगर वे सेवारत हैं तो आकांक्षाओं की पूर्ति होगी।

अगर आप सेवारत हैं तो भाग्यशाली रहेंगे। परामर्शदाता स्पर्धा से मुक्त रहेंगे जबकि व्यापारी खूब लाभ कमाएंगे।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। नेत्र और कान की मामूली व्याधि हो सकती है। शुभत्व में वृद्धि के लिए महिलाओं के कल्याण के लिए समर्पित संस्थाओं में दान दें।

### **अंतर्दशा :- मंगल - सूर्य ( 25/07/2030 - 30/11/2030 )**

आपकी मंगल की महादशा 30/06/2024 को प्रारंभ हो रही है। मंगल महादशा के अंतर्गत सूर्य की अंतर्दशा की अवधि 4 मास 6 दिन है। आपके लिए सूर्य की अंतर्दशा 25/07/2030 को प्रारंभ होकर 30/11/2030 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी सूर्य आत्मा, स्वास्थ्य और ऊर्जा का कारक है।

इस अवधि में आपको सफलता और उन्नति मिलेगी। उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे। स्वास्थ्य और कार्यक्षमता उत्तम रहेंगे। शत्रु परास्त होंगे। स्पर्धा में आप विजयी रहेंगे। धन का संचय होगा। कभी-कभी आप क्रोधी या निरंकुश हो सकते हैं। इस पर नियंत्रण आवश्यक है। विवाह संभव है।

आपके जीवनसाथी को व्यापार में लाभ, प्रोन्नति, उच्चाधिकारियों से सहयोग की संभावना है। माता को कार्यों में सफलता, प्रसिद्धि, प्रोन्नति, धनलाभ प्राप्त होंगे। छोटे भाई-बहन सफलता और धन प्राप्त करेंगे, विशिष्ट व्यक्तियों से मित्रता होगी। आपकी संतान को शिक्षा में सफलता मिलेगी। अगर वे कार्यरत हैं तो सौभाग्यशाली रहेंगे।

अगर आप सेवारत हैं तो कुछ परिवर्तन हो सकता है। परामर्शदाताओं को सफलता प्राप्त होगी। व्यापारियों को धनलाभ होगा।

आपको मामूली पित्त संबंधी शिकायत हो सकती है। शुभत्व में वृद्धि के लिए गेहूं, गुड़, और घी का दान करें।

### **अंतर्दशा :- मंगल - चंद्र ( 30/11/2030 - 01/07/2031 )**

आपके लिए मंगल की महादशा 30/06/2024 को प्रारंभ हुई और को समाप्त होगी। इस महादशा में चंद्र अंतर्दशा 7 मास की होगी और 30/11/2030 को प्रारंभ होकर 01/07/2031 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी चंद्र माता, प्रसन्नता और मस्तिष्क के रुझान का कारक है।

इस अवधि में आपका पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा; धन का संचय होगा। धनागम होगा, आनंद से समय कटेगा। सामाजिक कार्यों में भाग लेंगे। सरकार से लाभ हो सकता है। कला में रुचि होगी, सट्टेबाजी, खेलकूद आदि पर ध्यान देंगे। संतान से सुख प्राप्त होगा। संतान का जन्म भी हो सकता है। मित्रों का दायरा बढ़ेगा। विभिन्न माध्यमों से धन कमा सकते हैं। बड़े भाई-बहनों से संबंध मधुर रहेंगे।

आपके जीवनसाथी को सफलता, धनलाभ और सम्मान प्राप्त होंगे। आपके पिता दान आदि में रुचि लेंगे। माता को सब सुख नसीब होंगे, पारिवारिक जीवन उत्तम होगा। भाई-बहन बली, साहसी, सफल होंगे; उनका घरेलू जीवन उत्तम रहेगा, विवाह हो सकता है, सब सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आपकी संतान स्वस्थ होगी, सब कामों में सफलता मिलेगी, सुखी होंगे। अगर वे सेवारत हैं तो धन, सुख-सुविधाओं का योग है।

अगर आप सेवारत हैं तो तबादला हो सकता है। परामर्शदाताओं के काम में अप्रत्याशित परिवर्तन हो सकता है। व्यापारियों की आय में वृद्धि होगी।

सामान्यतः स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। पाचन तंत्र के रोगों और पानी से संबंधित बीमारियों से बचाव करें। शुभत्व में वृद्धि के लिए चांदी, चावल और श्वेत वस्त्र दान दें।